

RISHITA PANDEY

Designation .....*nishita*.....  
Stock Holding Corporation of India Ltd.  
15/63, Krishna Tower (Ground Floor)  
Civil Lines, Kanpur-208001

INDIA NON JUDICIAL



सत्यमेव जयते


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

*8302*

Certificate No.  
Certificate Issued Date  
Account Reference  
Unique Doc. Reference  
Purchased by  
Description of Document  
Property Description  
Consideration Price (Rs.)  
First Party  
Second Party  
Stamp Duty Paid By  
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP05433466745766Q  
: 18-Dec-2018 12:58 PM  
: SHCIL (FI)/ upshcilm01/ KANPUR/ UP-KNP  
: SUBIN-UPUPSHCIL0106493023677427Q  
: BAPL INFRABUILD P LTD AND VISION ADVANCE CONST LTD  
: Article 23 Conveyance  
: ARAZI NO- 485, 487 AT VILLAGE- NARAMAU KACHHAR, KANPUR NAGAR  
:  
: AKHILESH CITY HOMES REALITY AND DEV P LT AND OTHER  
: BAPL INFRABUILD P LTD AND VISION ADVANCE CONST LTD  
: BAPL INFRABUILD P LTD AND VISION ADVANCE CONST LTD  
: 9,62,500  
(Nine Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred only)



E STAMP LOCKED

S.R.-II, KANPUR NAGAR

Please write or type below this line



TQ 0010496177

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



### श्री गणशाय नमः

कार्यालय का नाम : उपनिबन्धक जोन-2, कानपुर नगर

1 प्रस्तुत दिनांक	: 18-12-2018
2 निष्पादन दिनांक	: 18-12-2018
3 प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता	: श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामफल वर्मा निवासी मकान नम्बर-568ख/502, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ।
4 लेखपत्र का प्रकार	: विक्रिय-पत्र
5 प्रतिफल	: 1,32,68,750/-रुपया
6 बाजारी मूल्य	: 1,37,50,000/-रुपया
7 विक्रेतागण का नाम व पता	: (1) अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइलि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ। (2) अल्सिना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइलि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ। (3) आलोक सिटी होम्स शेल्टर्स प्राइलि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ। (4) अल्विना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड रियल्टी प्राइलि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ। (5) अमरेशा सिटी होम्स रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइलि० (6) अम्बुजा सिटी होम्स शेल्टर्स प्राइलि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ। सभी द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामफल वर्मा निवासी मकान नम्बर-568ख/502, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ।




8 क्रेतागण का नाम व पता  
 क्रेता संख्या—1 का  
 मो०न०—7844887731  
 पैन—AAICB0678R  
 आधार—9061 2440 5004  
 क्रेता संख्या—2 का  
 पैन नम्बर—AADCV2202R  
 आधार—6669 4166 3974  
 Mob. No. 9506002121

: (1) बी०ए०पी०एल० इन्फ्राबिल्ड प्रांलि०,  
 पंजीकृत कार्यालय—एम०आई०जी०—२२०, कैलाश  
 विहार, आवास विकास—१, कल्यानपुर, कानपुर  
 नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा  
 पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान  
 नम्बर—११६ / १२३, आनन्द नगर, रावतपुर गाँव,  
 कानपुर नगर व (2) विजन एडवांस  
 कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड स्थित—७०बी—२ सांई  
 काम्पलेक्स, सांईपुरम्, पनकी रोड,  
 कल्यानपुर, कानपुर नगर—२०८०१७ द्वारा  
 डायरेक्टर—विनोद सिंह चन्देल पुत्र जयचन्द्र  
 सिंह निवासी मकान नम्बर—८१सी, सांईपुरम्,  
 पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर।

#### 9 विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1 स्थान

: राजस्व ग्राम नारामऊ कछार, तहसील व  
 जिला कानपुर नगर।

2 आराजी संख्या

: खाता संख्या—००००५ आराजी संख्या—४८५  
 क्षेत्रफल ०.१२३० हेक्टेयर व आराजी  
 संख्या—४८७ क्षेत्रफल ०.५०२० हेक्टेयर, कुल  
 विक्रीत क्षेत्रफल ०.६२५० हेक्टेयर स्थित  
 राजस्व ग्राम नारामऊ कछार, तहसील व  
 जिला कानपुर नगर।

3 विक्रीत क्षेत्रफल

: ०.६२५० हेक्टेयर यानि १.५४४४ एकड़

4 जमीन का प्रकार

: कृषि भूमि

5 वर्तमान में स्थिति

: कृषि होती है।

6 भूमि श्रेणी

: संक्रमणीय भूमिधरी

7 सीमा से सड़क की चौड़ाई

: १० फिट चकरोड़

#### 8 आराजी संख्या—४८५ की सीमाओं का विवरण

पूरब

: आराजी संख्या—४८७

पश्चिम

: चकरोड़ व आराजी संख्या—४८०

उत्तर

: आराजी संख्या—४८३

दक्षिण

: आराजी संख्या—४८६ व ४८७



Ghorashel,

आराजी संख्या—487 की सीमाओं का विवरण

पूरब	:	आराजी संख्या—514 व 513
पश्चिम	:	आराजी संख्या—486 व 485
उत्तर	:	आराजी संख्या—483, 517 व 516
दक्षिण	:	आराजी संख्या—489
9. क्रय का प्रयोजन	:	कृषि कार्य हेतु।
10. <u>स्टाम्प अदायगी का विवरण</u>	:	
1. जिलाधिकारी दर कृषि भूमि	:	2,20,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर
2. भूमि का मूल्य निर्धारित दर से	:	1,37,50,000/- रुपया
3. अधिकतम मूल्य	:	1,37,50,000/- रुपया
4. विक्रय मूल्य	:	1,32,68,750/- रुपया
5. जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प	:	9,62,500/- रुपया
6. कुल अदा किया गया स्टाम्प	:	9,62,500/- रुपया

नोट—वर्तमान में विक्रीत कृषि भूमि वास्तव में कृषि भूमि ही है, तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा रही है अथवा इसका विक्रय टुकड़ों में आवासीय या अन्य भूखण्ड के रूप में नहीं किया जा रहा है, विक्रीत कृषि भूमि सर्किल दर सूची में अर्धनगरीय ग्रामों के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। विक्रीत कृषि भूमि का अन्तरण कृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। विक्रीत कृषि भूमि पर कोई वृक्ष, कूप, नलकूप या निर्माण नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्तर्राज्यीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग के किनारे स्थित नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि को संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, पक्षगण अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं है। विक्रीत भूमि सीलिंग, गाँव सभा या भूदान से पट्टे पर प्राप्त की हुई नहीं है और न ही नजूल भूमि से सम्बन्धित है और न ही सीलिंग से सीमाधिक्य भूमि घोषित है। विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान नहीं है।

हम कि (1) अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय—1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (2) अल्पिना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय—1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (3) आलोक सिटी होम्स शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय—1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (4) अल्पिना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय—1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ(5)



अमरेशा सिटी होम्स रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (6) अम्बुजा सिटी होम्स शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ सभी द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामफल वर्मा निवासी मकान नम्बर-568ख/502, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ।


.....विक्रेतागण/प्रथमपक्ष

एवम्

(1) बी0ए0पी0एल0 इन्क्राबिल्ड प्राइवेट, पंजीकृत कार्यालय-एम0आई0जी0-220, कैलाश विहार, आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान नम्बर-116/123, आनन्द नगर, रावतपुर गाँव, कानपुर नगर व (2) विजन एडवांस कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड स्थित-70बी-2 साईं काम्पलेक्स, साईंपुरम्, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर-208017 द्वारा डायरेक्टर-विनोद सिंह चन्देल पुत्र जयचन्द्र सिंह निवासी मकान नम्बर-81सी, साईंपुरम्, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर।

.....क्रेतागण/द्वितीयपक्ष

विदित हो कि विक्रेतागण/प्रथमपक्ष खाता संख्या-00005 आराजी संख्या-485 क्षेत्रफल 0.1230 हेक्टेयर व आराजी संख्या-487 क्षेत्रफल 0.5020 हेक्टेयर, कुल विक्रीत क्षेत्रफल 0.6250 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम नारामऊ कछार, तहसील व जिला कानपुर नगर के संयुक्त मालिक, काबिज व दखीलकार है। उक्त सम्पत्ति को विक्रेतागण/प्रथमपक्ष जरिये विभिन्न पंजीकृत विक्रयपत्र पूर्व मालिक से खरीद किया है, जिसकी रजिस्ट्री क्रमशः दिनांक-22/03/2007 को बही संख्या-1 जिल्द संख्या-3541 के पृष्ठ संख्या-327 से 352 पर क्रमांक-840 व दिनांक-17/01/2006 को बही संख्या-1 पर क्रमांक-173 पर पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जोन-2, कानपुर नगर में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति का दाखिल खारिज भी विक्रेतागण/प्रथमपक्ष के हक में हो चुका है और विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में बहौसियत संक्रमणीय भूमिधर व सहखातेदार के रूप में अंकित चला आ रहा है। विक्रेतागण/प्रथमपक्ष के अलावा उक्त सम्पत्ति पर अन्य कोई व्यक्ति शामिल, शारीक व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। उक्त सम्पत्ति हर तरह से पाक व साफ है, कहीं रहन, बय, हिंडा या मुश्तगरक जमानत आदि में नहीं है। उक्त सम्पत्ति के आधार पर किसी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी या स्वायत्त संस्था



से या निगम से कोई ऋण विक्रेतागण ने नहीं प्राप्त किया है तथा विक्रीत सम्पत्ति किसी धनराशि वसूली या टैक्सों के बकाया मे कुर्क या बरसरे नीलाम नहीं है या किसी योजना में अर्जित नहीं है व उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय, पंचायत या द्रिब्युनल में या किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और विक्रेतागण को उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा रोका नहीं गया है। विक्रेता माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-11 जुलाई 2016, जो अवमानना याचिका (सी०) 412-413/2012, जो कि सिविल अपील नम्बर-9813 व 9833 सन् 2011 में पारित किया गया है, के प्रकाश में इस भूमि को विक्रय करने के लिये पूर्णतयः सक्षम है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पूर्णतया भारमुक्त पाक, साफ स्थिति में है व उसके हस्तान्तरण के पूर्ण अधिकार विक्रेतागण को प्राप्त हैं।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण/प्रथमपक्ष को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता है और उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के अलावा रूपया प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया नहीं नजर आता है। अतः विक्रेतागण/प्रथमपक्ष ने मुनासिब समझकर उक्त सम्पत्ति के विक्रय की बातचीत चलाई, जिस पर (1) बी०ए०पी०एल० इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय-एम०आई०जी०-220, कैलाश विहार, आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान नम्बर-116/123, आनन्द नगर, रावतपुर गाँव, कानपुर नगर व (2) विजन एडवांस कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड स्थित-70बी-2 साई काप्लेक्स, साईपुरम्, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर-208017 द्वारा डायरेक्टर-विनोद सिंह चन्देल पुत्र जयचन्द्र सिंह निवासी मकान नम्बर-81सी, साईपुरम्, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर उक्त सम्पत्ति को बिल एवज मुबलिग 1,32,68,750/-रूपया में खरीद करने को तैयार है और इससे अधिक कीमत अन्य कोई व्यक्ति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि भूमि कम उपजाऊ है और पानी का कोई साधन नहीं है। अतः उक्त कीमत विक्रेतागण/प्रथमपक्ष को मंजूर भी है। अतः विक्रेतागण/प्रथमपक्ष ने खूब सोच समझकर उपरोक्त सम्पत्ति को बिलएवज मुबलिग 1,32,68,750/-रूपया में क्रेतागण/द्वितीयपक्ष (1) बी०ए०पी०एल० इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय-एम०आई०जी०-220, कैलाश विहार, आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान



नम्बर-116/123, आनन्द नगर, रावतपुर गाँव, कानपुर नगर व (2) विजन एडवांस कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड स्थित-70बी-2 साईं काम्पलेक्स, साईंपुरम्, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर-208017 द्वारा डायरेक्टर-विनोद सिंह चन्देल पुत्र जयचन्द्र सिंह निवासी मकान नम्बर-81सी, साईंपुरम्, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर के हक में विक्रय कराई कर दिया यानी कि बैंच डाला तथा कुल विक्रय कीमत निम्न विवरणानुसार क्रेतागण/द्वितीयपक्ष से वसूल पा लिया है, अब विक्रेतागण को क्रेतागण/द्वितीयपक्ष से कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण ने आज की तिथि से ही विक्रीत भूमि से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेतागण को काबिज कर दिया है, अब क्रेतागण/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जिस तरह चाहे, उक्त सम्पत्ति को अपने इस्तेमाल में लावें, इसके लिये वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, चाहे वह कृषि कार्य करावे, स्वयं करे या किराये पर उठावे, बलकट उठावें, बन्धक या विक्रय करें। विक्रेतागण/प्रथमपक्ष व वारिसान विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह भी विदित हो कि क्रेतागण/द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार है कि वह क्रयशुदा सम्पत्ति से कागजात सरकारी, भू-राजस्व अभिलेखों आदि में उक्त सम्पत्ति से विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक बखाना मिलकियत में दर्ज करा लेवें तथा विक्रेतागण/प्रथमपक्ष की रजामन्दी दस्तावेज हाजा विक्रय पत्र द्वारा मानी जायेगी, फिर भी कहीं भी विक्रेतागण/प्रथमपक्ष की मदद या लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी तो विक्रेतागण/प्रथमपक्ष अपने बयान मौखिक, लिखित व शपथपत्र के साथ देने को पाबन्द रहेंगे।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण/प्रथमपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति स्वयं को पूर्ण स्वामी कहकर व हर प्रकार से भार मुक्त कहकर विक्रय की गयी, यदि कोई बात इस लेखपत्र के विपरीत पायी जाये या उसके स्वामित्व पत्र कहीं बन्धक पाये जाये या कोई अन्य व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार पाया जायें अथवा विक्रेतागण/प्रथमपक्ष के किसी कार्य या अकार्य से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग क्रेतागण/द्वितीयपक्ष के कब्जा दखल से निकल जाये, तो क्रेतागण/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज जरे समन



## विक्रय पत्र

प्रतिफल- 13268750 स्टाम्प शुल्क- 962500 बाजारी मूल्य - 13750000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री अखिलेश सिटी होम्स रियलिटी एंड डेवलपमेंट प्रा० लि० व  
अन्य द्वारा

जीतेन्द्र प्रताप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

पुत्र श्री रामफल वर्मा

व्यवसाय : अन्य

निवारी: मकान नंबर-५६८ख/३०२, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ,  
आधार न०-633180095770



श्री. अखिलेश सिटी होम्स रियलिटी एंड जीतेन्द्र प्रताप सिंह  
डेवलपमेंट प्रा० लि० व अन्य द्वारा अधिकृत पदाधिकारी/  
प्रतिनिधि

ने यह तेख्यपत्र इस कार्यालय में दिनाँक  
18/12/2018 एवं 02.49:31 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०बी०चन्द्रा उपनिबंधक जोन-२ कानपुर नगर।  
उप निबंधक सदर दृवितीय

कानपुर नगर  
18/12/2018

एस०बी०चन्द्रा उपनिबंधक जोन-२ कानपुर नगर।

उप निबंधक:

विक्रेतागण/प्रथमपक्ष से बजरिये अदालत वसूल कर लेवें, जिसमें विक्रेतागण/प्रथमपक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। विक्रेतागण ने उपरोक्त सम्पत्ति को अपने पूर्ण होशोंहवास में मय समस्त हक हकूक, दाखिला—खारिजा, हाल व आइन्दा, बिना छोड़े किसी अधिकार के क्रेतागण/द्वितीयपक्ष के हक में विक्रय कर दिया है, अब विक्रीत सम्पत्ति से विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है। इस विक्रय पत्र की पाबन्दी विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा यह विक्रय लेखपत्र अपने मन बुद्धि, शरीर व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी भय या दबाव के हर प्रकार से अपना अपना हित देखकर गवाहान के समक्ष पढ़ सुन व समझकर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे।

#### तफसील वसूलयाबी जरे समन मु0 1,32,68,750/-रुपया

मु0 22,11,458/-रुपया	जरिये चेक संख्या—045547 दिनांक—10.12.2018
मु0 22,11,458/-रुपया	जरिये चेक संख्या—045549 दिनांक—10.12.2018
मु0 22,11,458/-रुपया	जरिये चेक संख्या—045552 दिनांक—10.12.2018
मु0 22,11,458/-रुपया	जरिये चेक संख्या—045555 दिनांक—10.12.2018
मु0 22,11,458/-रुपया	जरिये चेक संख्या—045557 दिनांक—10.12.2018
सभी चेके—कारपोरेशन बैंक, शाखा—कल्यानपुर, कानपुर नगर।	
मु0 22,11,458/-रुपया	जरिये आर0टी0जी0एस0 दिनांक—15.12.2018
कारपोरेशन बैंक, शाखा—कल्यानपुर, कानपुर नगर।	

#### मु0 1,32,68,750/-रुपया कुल

इस प्रकार कुल मु0 1,32,68,750/-रुपया विक्रेतागण ने क्रेतागण से प्राप्त कर लिया था, अब कोई धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है। विक्रय प्रतिफल में टी0डी0एस0 धनराशि शामिल है।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०बी०चन्द्रा उपनिबंधक जोन-२

कानपुर नगर।

उप निबंधक : सदर द्वितीय

कानपुर नगर

एस०बी०चन्द्रा उपनिबंधक जोन-२

कानपुर नगर।

उप निबंधक

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी :



तहरीर दिनांक—18 -12-2018

गवाहान

1.

वरुण कुमार यादव  
पुत्र शिवमूरत यादव  
नि0-116 / 653, केशव  
नगर, रावतपुर गाँव  
कानपुर नगर  
मो0नं0—9919677333  
आधार—988265115958



हस्ताक्षर विक्रेतागण / प्रथमपक्ष



2.

शैलेन्द्र कुमार वर्मा  
पुत्र श्रीराम वर्मा  
नि0-134-ए / 114  
लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी  
बीमा विहार, बस्ती, कानपुर नगर  
मो0नं0—9839977333  
आधार—200285541167



हस्ताक्षर क्रेतागण / द्वितीयपक्ष



ड्राफ्टेड बाई मी एण्ड  
टाइप्ड बाई माई स्टेनो

R S J  
राजीव मिश्रा  
एडवोकेट  
कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझाने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अखिलेश सिटी होम्स रियलिटी एंड डेवलपमेंट  
प्रा० लि० व अन्य के द्वारा जीतेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र  
श्री रामफल वर्मा

निवासी: मकान नंबर-७६८ख/७०२, गोतापल्ली,  
आलमबाग, लखनऊ, आधार न०-631180095770

ठ्यवसाय: अन्य

फ्रेता: 1



श्री बी० ए० पी० एल० इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० के द्वारा  
सन्दीप कुशवाहा, पुत्र श्री राजकरन कुशवाहा

निवासी: मकान नंबर-११६/१२३, आनन्द नगर,  
रावतपुर गाँव, कानपुर नगर, आधार  
न०-906124405004

ठ्यवसाय: अन्य


फ्रेता: 2



श्री निज़ून एडवांस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा  
विनोद सिंह चन्देल, पुत्र श्री जयचन्द्र सिंह

निवासी: मकान नंबर-८१सी, साईंपुरम, पनकी रोड,  
कल्यानपुर, कानपुर नगर, आधार  
न०-666941693974

ठ्यवसाय: अन्य



मेरे निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री वरुण कुमार यादव, पुत्र श्री शिवमूरत यादव  
निवासी: ११६/६५३, केशव नगर, रावतपुर गाँव,

कानपुर नगर, आधार न०-988265115958

ठ्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री शिवमूरत कुमार वर्मा, पुत्र श्री श्रीराम वर्मा

निवासी: १३४ए/११४, लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी,  
बीमा विहार बस्ती, कानपुर नगर, आधार  
न०-200285541167

ठ्यवसाय: अन्य



SITE PLAN OF ARAZI NO. .... 485, 487 ..... AT


SITUATED AT MAUJA ..... NARAMOU KACHHAR ..... TEH. & DISTT KANPUR


SELLER AS PER DEED

PURCHASER AS PER DEED

SOLD ARAZI AREA ..... 0: 6250 ..... HECT.

ARAzi AREA SHOWN USE-ARGI



SIGNATURE OF SELLER	SIGNATURE OF PURCHASER	SIGNATURE OF ENGINEER
 	  	 <p>Er. RANJEET KUMAR D. Civil Engineer Surveyor Appd. By K.D.A. Resi. 14/71, P.P.H., Panki, Kanpur Mobile No -9919301785</p>

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9261 के पृष्ठ 163 से 182  
तक क्रमांक 8302 पर दिनांक 18/12/2018 को  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०वी०चन्द्रा उपनिषद्धक जोन र कानपुर नगर।  
उप निबंधक : सदर दूषितीय

कानपुर नगर

18/12/2013

